

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2392

मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

देश में समुद्र तट संबंधी पर्यटन

2392. श्री प्रसन्न आचार्य:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में समुद्र तट संबंधी पर्यटन (बीच टूरिज्म) को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अंतिम रूपरेखा क्या है;
- (ख) ऐसे प्रमुख तट कौन-कौन से हैं जिनके सर्वांगीण विकास के लिए निधि प्रदान की गई है और इसके परिणाम क्या हैं; और
- (ग) क्या सरकार ओडिशा में पुरी, गोपालपुर और चांदीपुर के समुद्र तटों को विकसित करने पर विचार करेगी?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): बीच सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो द्वारा किया जाता है। तथापि पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन और संरचना के विकास के लिए थीम आधारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की है। तटवर्ती परिपथ जिसमें बीच शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु अभिज्ञात किए गए थीमैटिक परिपथों में से एक है। ओडिशा सहित देश में तटवर्ती परिपथ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

इन परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशा निर्देशों के अनुपालन तथा पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनुबंध

देश में समुद्र तट संबंधी पर्यटन के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के राज्य सभा लिखित प्रश्न सं. 2392 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती परिपथ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	2014-15	काकीनाडा - होप द्वीप - कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य - पासरलापुडी - अडुरु - एस यानम - कोटिपल्लीजुना में परिपथ का विकास	67.84
2	आंध्र प्रदेश	2015-16	नेल्लोर, पुलिकट झील, उबलंबादुगु जलप्रपात, नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य, मिपदु तट, रामतीर्थम का विकास	49.46
3	पुदुच्चेरी	2015-16	डबर्पेट, अरीकेमेडु चाइना वीरमपट्टिनम, चुन्नमार, नल्लावाडु, मनापेट, कलापेट, फ्रेंच क्वार्टर, तमिल क्वार्टर और यानम का विकास	85.28
4	पश्चिम बंगाल	2015-16	बीच परिपथ का विकास: उदयपुर- दीघा- शंकरपुर- ताजपुर- मंदारमणि- फ्रेजरगंज-बक्खलाई-हेनरी द्वीप	85.39
5	महाराष्ट्र	2015-16	सिंधुदुर्ग तटीय परिपथ (शिरोडा बीच, सागेश्वर, तारकरली, विजयदुर्ग (समुद्र तट और क्रीक), देवगढ़ (किला और समुद्र तट), मिताभव, टोंडावली, मोशमद और निवाती फोर्ट का विकास।	19.06
6	गोवा	2016-17	सिन्किरीम - बागा, अंजुना - वागाटोर, मोरजिम - केरी, अगुआडा किला और अगुआडा जेल का विकास	97.65
7	ओडिशा	2016-17	गोपालपुर, बरकुल, सतपदा और तंपारा का विकास	70.82
8	अंडमान एवं निकोबार	2016-17	लांग आईलैंड -रॉस स्मिथ द्वीप- नील द्वीप- हैवलॉक द्वीप- बाराटांग द्वीप-पोर्ट ब्लेयर का विकास	26.91
9	तमिलनाडु	2016-17	चेन्नई - ममल्लामपुरम - रामेश्वरम - कुलसेकरनपट्टिनम - कन्याकुमारी का विकास	72.26
10	गोवा	2017-18	रूआ डी ओरम क्रीक - डॉन पाउला -कोल्वा - बेनौलिम का विकास	99.35
